



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 1977 चैत्र 7, 1899

No 152] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28 1977 CHAITRA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March 1977

S.O. 270(E)—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declarations containing the names of the candidates elected in the constituencies referred to therein, are published for general information:—

GUJARAT

(1)

"Election to the House of the People

1—Kutch Parliamentary Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Dave Anantray Devshankar, 3723-E, Bandiawall Dharmashala Bunder Road, Mandvi Kutch—370465

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Bhuj Kutch

Date 20-3-77

(Sd) L. M. Sud,
Returning Officer"

(1365)

(2)

*"Election to the House of the People**2—Surendranagar Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Amin Ramdas Kishordas, 5, Nilkanth Park, Navrangpura, Ahmedabad has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Surendranagar
Date: 20-3-77

(Sd.) A. K. PRADHAN,
Returning Officer."

(3)

*"Election to the House of the People**3—Jamnagar Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Vinodbhai B Sheth, Sheth Bhagwandas Road, Digvijay Plot, Jamnagar has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Jamnagar
Date: 21-3-77

(Sd.) VIJAY RANCHAN,
Returning Officer."

(4)

*"Election to the House of the People**4—Rajkot Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Patel Keshubhai Savdasbhai, Hathikhana Road Near Water Tank, Rajkot, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Rajkot
Date: 20-3-77

(Sd.) R. BASU,
Returning Officer."

(5)

*"Election to the House of the People**5—Porbandar Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Patel Dharmasibhai Dahyabhai, 3 Girnar Society Junagadh has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Porbandar
Date: 20-3-77

(Sd.) C. P. PATEL,
Returning Officer."

(6)

*"Election to the House of the People**6—Junagadh Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Nathwani Narendra Pragnji, 21, Bakhtawar Annex, Narayan Dabholkar Road, Bombay No. 6 has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Junagadh
Date: 20-3-77

(Sd.) M. N. BUCH,
Returning Officer."

(7)

*"Election to the House of the People**7—Amreli Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Dwarkadas Mohanlal Patel, Savijipara, Amreli.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Amreli

(Sd.) K. C. MAHAPATRA,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(8)

*"Election to the House of the People**8—Bhavnagar Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Prasannavadan Manilal Mehta, Yagnakripa, Takhteshwar Ward Bhavnagar.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Office of the Collector,

(Sd.) R. RAMABADRAN,

Motibaug, Bhavnagar

Returning Officer."

Date: 20-3-77

(9)

*"Election to the House of the People**9—Dhandhuka (SC) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Parmar Natvarlal Bhagavandas, Kali, District Ahmedabad

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Ahmedabad

(Sd.) J. A. CHOWDHURY,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(10)

*"Election to the House of the People**10—Ahmedabad Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Jafri Ahesanhusen Allabux, 19, Gulbarg Society, Chamanpura, Ellisbridge, Ahmedabad—380006

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Ahmedabad

(Sd.) A. PRASAD,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(11)

*"Election to the House of the People**11—Gandhinagar Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Purushottam Ganesh Mavalankar, 'Gopika' 22, Maharashtra Society, Ellisbridge, Ahmedabad—380006

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Ahmedabad

(Sd.) S. G. BHATT,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(12)

*"Election to the House of the People**12—Mehsana Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Kumari Patel Maniben Vallabhai, 28, New Brahmakshatriya Society Ellisbridge, Ahmedabad—6

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Mehsana

(Sd) A. W. P. DAVID,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(13)

*"Election to the House of the People**13—Patan (S C.) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Chavda Khemchandbhai Somabhai of Dhinoj, Taluka—Chanasma, District—Mehsana

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Patan

(Sd.) KUNDAN LAL,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(14)

*"Election to the House of the People**14—Banaskantha Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Chaudhary Motibhai Ranchhodbhai

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Palanpur

(Sd.) P K LAHERI,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(15)

*"Election to the House of the People**15—Sabarkantha Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Patel Hirubhai Muljibhai, Savita Bunglow, Bakrol Road, Vallabha-vidyanagar—388120.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Himatnagar

(Sd.) H A MISTRY,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(16)

*"Election to the House of the People**16—Kapadvanj Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Vaghela Shankarji Laxmanji, AT & PO : Vasan, Taluka & District Gandhinagar.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Himatnagar

(Sd) A MYANGER,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(17)

*"Election to the House of the People**17—Dohad (ST) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Damor Somjibhai Punjabhi of Adiwasi Society, Chakalia Road, Dohad Dist Panchmahals (Gujarat State).

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place. Dohad (Sd.) H. C. PATRA,

Date. 20-3-77

Returning Officer."

(18)

*"Election to the House of the People**18—Godhra Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Desai Hitendrabhai Kanaiyalal, 2-Akbar Road, New Delhi.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place. Godhra (Sd.) S. C. HALDER,

Date. 21-3-77

Returning Officer."

(19)

*"Election to the House of the People**19—Kaira Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Desai Dharmsinh Dadubhai, Dharmsinh Park, N. H No. 8 P. B-31 Nadiad-387001.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place. Nadiad (Sd.) K. V. BHANUJAN,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(20)

*"Election to the House of the People**20—Anand Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Ajitsinh Fulsinhji Dabhi, Diwali Pole, Nadiad Taluka Nadiad, Dist. Kaira (Gujarat)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place. Anand (Sd.) N K. CHAUHAN,

Date. 20-3-77

Returning Officer."

(21)

*"Election to the House of the People**21—Chhotaudaipur (ST) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Rathawa Amarsinh Viriyabhai, AT & POST Kawant Taluka, Chhotaudaipur, Dist. Vadodra

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place. Vadodra (Sd.) S. R. PRADHAN,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(22)

*"Election to the House of the People**22—Baroda Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Gaekwad Fatesinhrao Pratapsinhrao Laxmivilas Palas, Vadodara
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Baroda

(Sd.) T. R. AGNANI,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(23)

*"Election to the House of the People**23—Broach Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Patel Ahmedbhai Mohamadbhai, Piraman, Haluka Ankleshwar District
Broach

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Bharuch

(Sd.) SANJIV MISRA,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(24)

*"Election to the House of the People**24—Surat Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Desai Morarji Ranchhodji, 5, Duplex Road, New Delhi-11
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Surat

(Sd.) A. PRASAD,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(25)

*"Election to the House of the People**25—Mandvi (ST) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Gamit Chhittubhai Devjibhai, AT & POST Kanjod Taluka; Valod
Dist. Surat

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Surat

(Sd.) DIPANKAR BASU,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(26)

*"Election to the House of the People**26—Bulsar (ST) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Patel Nanubhai Nichhabhai AT —Vaghaldhara, POST —Dungri,
District :—Bulsar

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Bulsar

(Sd.) A K CHAKRAVORTY,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

HARYANA

(1)

*"Election to the House of the People**1—Ambala (SC) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Suraj Bhan, 121, Railway Road, Ambala Cantt. District Ambala has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Ambala City

(Sd.) L. M. MEHTA,

Date. 21-3-77

Returning Officer."

(2)

*"Election to the House of the People**2—Kurukshetra Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Raghbir Singh, Boota Singh Colony, Karnal has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Kurukshetra

(Sd.) D. DASGUPTA,

Date 21-3-77

Returning Officer."

(3)

*"Election to the House of the People**3—Karnal Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Bhagwat Dayal, 19 Lodhi Estate, New Delhi has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Karnal

(Sd.) DHANENDRA KUMAR

Date 21-3-77

Returning Officer."

(4)

*"Election to the House of the People**4—Sonapat Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that —

Shri Mukhtiar Singh, Advocate, Mission Road, Sonapat has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place Sonapat

(Sd) ILLEGIBLE,

Date 21-3-77

Returning Officer."

(5)

*"Election to the House of the People**5—Rohtak Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Sher Singh, Village Baghpur, P O Bari, Distt Rohtak has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place Rohtak

(Sd) S P MITTAL,

Date 21-3-77

Returning Officer."

(6)

*"Election to the House of the People**6—Faridabad Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that —

Shri Dharm Vir Vasisht, Village Sihl, Tehsil Ballahna, District Faridabad, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Gurgaon

(Sd.) M. K. MIGLANI,

Date 21-3-77

Returning Officer."

(7)

*"Election to the House of the People**7—Mahendragarh Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that —

Shri Manohar Lal, Advocate Mohalla Piraga, Narnaul, District Mahendragarh, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Narnaul

(Sd.) R. S. MANN,

Date 21-3-77

Returning Officer."

(8)

*"Election to the House of the People**8—Bhiwani Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that —

Shrimati Chandravati, Charkhi Dadri, District Bhiwani, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Bhiwani

(Sd.) RAM S. VARMA,

Date 21-3-77

Returning Officer."

(9)

*"Election to the House of the People**9—Hissar Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that —

Shri Inder Singh, Saraswatibhawan, Norwana Distt Jind, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Jind

(Sd.) RAGHBER SINGH,

Date 21-3-77

Returning Officer."

(10)

*"Election to the House of the People**10—Sirsa (SC) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that —

Shri Chand Ram, 621, Ravi Dass Nagar, Rohtak, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Hissar

(Sd.) L. M. GOYAL,

Date 21-3-77

Returning Officer."

MAHARASHTRA

(1)

*"Election to the House of the People**1—Rajapur Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Prof Madhu Dandavate, Sharadashram Bhavanani Shankar Road, Dadar, Bombay-28

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place. Ratnagiri (Sd.) SURESH KUMAR,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(2)

*"Election to the House of the People**2—Ratnagiri Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Parulekar Bapusaheb, "Anand Bhavan", Ratnagiri

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place. Ratnagiri (Sd.) SURESH KUMAR,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(3)

*"Election to the House of the People**3—Kolaba Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Dinkar Balu Patil, "Sangram" Panvel, District Kolaba, Maharashtra

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place. Alibag (Sd.) B. K AGRAWAL,

Date : 20-3-77

Returning Officer."

(4)

*"Election to the House of the People**4—Bombay South Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Rajda Ratansinh G., 145-C, Dr. Viegas Street, Khimji Mathuradas Building, Bombay-400002

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place Elphinstone College, Bombay (Sd.) N. H. R. HYNNEWTA,

Date 21-3-77

Returning Officer."

(5)

*"Election to the House of the People**5—Bombay South Central Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri B. C. Kamble, Advocate, 11/174, Adarsh Nagar, Prabhadevi, Bombay-400025

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place Elphinstone College, Bombay (Sd.) N. H. R. HYNNEWTA,

Date 21-3-77

Returning Officer."

(6)

*"Election to the House of the People**6—Bombay North Central Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Smt Ahilya P. Rangnekar, Venkatesh Niwas, Room No. 21, 2nd Floor, M/H. No. 37, Bahu Daji Road, Matunga, Bombay-400019

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Bombay

(Sd.) M. B. CHOBE,

Date: 20-3-77

Returning Officer "

(7)

*"Election to the House of the People**7—Bombay North East Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Dr. Subramaniam Swamy, C/O S. T. Rani, A-Tur Park, Building No. 1, 3rd Floor, V. N. Durav Road, Chembur, Bombay-71

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Bombay

(Sd.) C. D. SINGH,

Date: 21-3-77

Returning Officer "

(8)

*"Election to the House of the People**8—Bombay North West Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Ram Jethmalani, M. H. No. 8, Advant G. Jagannath Bhosale Marg, Bombay

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Bombay

(Sd.) C. D. SINGH,

Date: 21-3-77

Returning Officer "

(9)

*"Election to the House of the People**9—Bombay North Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Smt Mrinal K. Gore Topiwala Bungalow, S. V. Road, Goregaon, Bombay-62

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Bombay

(Sd.) R. GOPAL,

Date: 20-3-77

Returning Officer "

(10)

*"Election to the House of the People**10—Thana Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Mhargi Ramchandra Kashinath 465, Shaniwar Peth, Pune-30, Maharashtra State

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Collector's Office, Thana

(Sd.) R. S. MISRA,

Date: 21-3-77

Returning Officer "

(11)

*"Election to the House of the People*11—*Dahanu (ST) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Kom Lahanu Shidva, AT. & POST & Taluka Talasari, District Thane, Maharashtra State

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Thana

(Sd.) NEELA SATYANARAYAN,

Date : 20-3-77

Returning Officer."

(12)

*"Election to the House of the People*12—*Nasik Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Hande Vithalrao Ganpatrao, Parvati, Scheme No. 6, Road No. 5, Sion, West, Bombay-22

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Nasik

(Sd.) ASOKE BASAK,

Date : 21-3-77

Returning Officer."

(13)

*"Election to the House of the People*13—*Malegaon (ST) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Mahale Hari Shankar, Vare, Post Deothan, Taluka Dindori, District Nasik (Maharashtra)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Nasik

(Sd.) ASOKE BASAK,

Date : 21-3-77

Returning Officer."

(14)

*"Election to the House of the People*14—*Dhula Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Patil, Vijay Kumar Naval, At & Post Nawara-Navari, Taluka Dhula, District Dhula

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place: Dhula

(Sd.) AJAY DUA,

Date : 21-3-77

Returning Officer."

(15)

*"Election to the House of the People*15—*Nandurbar (ST) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Naik Surupsing Hirva Nawagaon (Dhayate), Post Umrani, Taluka Nawapur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place: Dhule

(Sd.) AJAY DUA,

Date : 21-3-77

Returning Officer."

(16)

*"Election to the House of the People**16—Erandol Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Patil Sonusing Dhansing, "Rachana" Bhadgaon Road, Chalisgaon, At & Post Taluka Chalisgaon, District Jalgaon (M S)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Jalgaon

(Sd.) S. S. JAMWAL,

Date 21-3-77

Returning Officer."

(17)

*"Election to the House of the People**17—Jalgaon Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Borole Yashwant Mansaram, 236, Jilla Peth Near Sessions Court, Jalgaon Taluka & District Jalgaon

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place Jalgaon

(Sd.) S. S. JAMWAL,

Date 21-3-77

Returning Officer."

(18)

*"Election to the House of the People**18—Buldhana (SC) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Gawai, Dulat Gunaji, At Post Shirpur, Tq Chikhli, District Buldhana has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place Buldhana

(Sd.) R. TIWARI,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(19)

*"Election to the House of the People**19—Akola Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Sathe Vasantrao Purushottam, Dhantoli Nagpur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Akola

(Sd.) K. NALINAKSHAN,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(20)

*"Election to the House of the People**20—Washim Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Naik Vasantrao Phulsing, At. Post Pusad, District Yavatmal

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Akola

(Sd.) K. NALINAKSHAN,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(21)

*"Election to the House of the People**21—Amravati Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that.—

Shri Bonde Nana Mahadeo, Mangilal Plot, Ward No 5, Amravati Camp, Amravati
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place, Amravati (Sd) M. R. PATIL,
Date, 20-3-77 Returning Officer."

(22)

*"Election to the House of the People**22—Ramtek Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that.—

Shri Barve Batiramji Chaitramji, At & Post Ramtek, District Nagpur
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place, Nagpur (Sd) JAGDISH JOSHI,
Date 20-3-77 Returning Officer."

(23)

*"Election to the House of the People**23—Nagpur Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that.—

Shri Awari Gev Manchershya, Siraspetli, Umred Road, Ward No. 19, Nagpur
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place: Nagpur (Sd) JAGDISH JOSHI,
Date 21-3-77 Returning Officer."

(24)

*"Election to the House of the People**24—Bhandara Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that.—

Shri Mankar Laxmanrao Bisanji, At and Post Amgaon, Tehsil Gondia District Bhandara
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency
Place: Bhandara (Sd.) K. S. SIDHU,
Date 21-3-77 Returning Officer."

(25)

*"Election to the House of the People**25—Chimur Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that.—

Thakur Krishnarao Dagoji, At and Post Lakhandur, Tahsil Sakoli, District Bhandara
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place: Bhandara (Sd) K. S. SIDHU,
Date 21-3-77 Returning Officer."

(26)

*"Election to the House of the People**26—Chandrapur Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Raje Vishveshvarrao, Aheri, Tq. Sironcha, Distt. Chandrapur
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Chandrapur

(Sd.) D K. SANKARAN,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(27)

*"Election to the House of the People**27—Wardha Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Gode Santoshrao Vyankatrao, Sudampuri, Ward No. 4, Wardha
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Wardha

(Sd.) R. B. BUDHIRAJA,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(28)

*"Election to the House of the People**28—Yeotmal Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Jawade Shrudharrao Natthobaji, At & Post Chahand Tq. Kelapur, Distt. Yeotmal

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Yavatmal

(Sd) LALFAK ZUALA,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(29)

*"Election to the House of the People**29—Hingoli Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Patil Chandrakant Ramkrishna, At & Post : Goregaon, Tq. Hingoli,
District Parbhani

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Nanded

(Sd.) W. G. RANADIVE,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(30)

*"Election to the House of the People**30—Nanded Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Dhondge Keshav Rao Shankar Rao, Kranti Bhuwan, Post : Bahadarpura, Tq. Kandhar, District Nanded

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Nanded

(Sd.) W. G. RANADIVE,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(31)

*"Election to the House of the People**31—Parbhani Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Deshmukh Sheshrao Apparao, "Yashodhan", Deshmukh Galli, Motha Maroti Parbhani

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place. Parbhani

Date 20-3-77

(Sd) P. M. KAWDE,

Returning Officer."

(32)

*"Election to the House of the People**32—Jalna Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Pundlik Hari Danve of Pimpalgaon Sutar, Taluka Bhokardan District Aurangabad (Maharashtra)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place. Aurangabad

Date. 20-3-77

(Sd) J. G. RAJADHYAKSHA,

Returning Officer."

(33)

*"Election to the House of the People**33—Aurangabad Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Dr. Bapu Kaldate, 6, Sanmitra Colony, Aurangabad

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place. Aurangabad

Date. 20-3-77

(Sd) J. G. RAJADHYAKSHA,

Returning Officer."

(34)

*"Election to the House of the People**34—Bhir Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Burande Gangadher Appa R/o Moha Taluka Manjlegaon, Distt. Beed

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place. Beed

Date 20-3-77

(Sd.) G. C. GILL,

Returning Officer."

(35)

*"Election to the House of the People**35—Latur Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Patil Udhavrao Sahebrao, Tambrā Vibhag, Osmanabad.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place. Osmanabad

Date 20-3-77

(Sd.) R. C. IYER,

Returning Officer."

(36)

"Election to the House of the People"

36—Osmanabad (SC) Parliamentary Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Shrangare Tukaram Sadashiv, Labour Colony, Latur
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Osmanabad

(Sd) R. C. IYER,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(37)

"Election to the House of the People"

37—Sholapur Parliamentary Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Damani Surajratan Fatechand, Municipal H No 11, Damani House,
Cuff Parade Road, Bombay
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place. Sholapur

(Sd) S. N KHANDEKAR,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(38)

"Election to the House of the People"

38—Pandharpur (SC) Parliamentary Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Thorat Sandipan Bhagwan 16/120, Sobha Nagar (Modi) Sholapur
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place. Sholapur

(Sd.) S. N KHANDEKAR,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(39)

"Election to the House of the People"

39—Ahmednagar Parliamentary Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Shinde Annasaheb Pandurang, H. No. 1435 At & Post Shrirampur,
Dist Ahmednagar

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place Ahmednagar

(Sd) VIJAY SINGH,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(40)

"Election to the House of the People"

40—Kopergaon Parliamentary Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Vikhe Eknathrao Vithalrao, At Loni Bk Post Loni Khurd, Tal. Shrirampur, District Ahmednagar

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Ahmednagar

(Sd) VIJAY SINGH,

Date 20-3-77

Returning Officer."

(41)

*"Election to the House of the People**41—Khed Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Annasaheb Magar, Hadapsar, Pune-28

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Pune

(Sd.) ARUNA BAGCHEE,

1961, I declare that:—

(42)

*"Election to the House of the People**42—Poona Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Dharia Mohan Manikchand, 2064, Sadashiv Peth, Pune-30

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Pune

(Sd.) D. K. AFZULPURKAR,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(43)

*"Election to the House of the People**43—Baramati Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Sambhajirao Sahebrao Kakade, 2037, Sadashiv Peth, Pune-30

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Pune

(Sd.) D. K. AFZULPURKAR,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(44)

*"Election to the House of the People**44—Satara Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Chavan Yashavantrao Balvantrao, House No. 310, Shukrawar Peth, Karad District Satara, Maharashtra

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Satara

(Sd.) ARUN BHATIA,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(45)

*"Election to the House of the People**45—Karad Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Chavan Premalabai Dajisaheb, 243 D 2/3, Shaniwar Peth, Patan Colony, Karad, Tal. Karad, District Satara

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Satara

(Sd.) ARUN BHATIA,

Date: 20-3-77

Returning Officer."

(46)

*"Election to the House of the People**46—Sangli Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Gotkhinde Ganapatrao Tukaram, Saraf Katta, Sangli
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place: Sangli (Sd.) K. C. SRIVASTAVA,
Date: 20-3-77 Returning Officer."

(47)

*"Election to the House of the People**47—Ichalkaranji Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Mane Rajaram alias Balasaheb Shankarrao, 289, B. Rukadi Taluka
Hatkanangle, District Kolhapur, Maharashtra State
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place: Kolhapur (Sd.) D. T. JOSEPH,
Date: 20-3-77 Returning Officer."

(48)

*"Election to the House of the People**48—Kolhapur Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Desai Dajiba Balawantrao, 9, Sadashiv Nagar, Belgaum, Karnatak
State
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place: Kolhapur (Sd.) D. T. JOSEPH,
Date: 21-3-77 Returning Officer."

MANIPUR

(1)

*"Election to the House of the People**1—Inner Manipur Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri N Tombi Singh of Uripok, Ningthoukhongam Leikai, P. O. Imphal
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place: Lamphelpat, Imphal (Sd.) A. H. CHOWDURY,
Date: 22-3-77 Returning Officer."

(2)

*"Election to the House of the People**2—Outer Manipur (ST) Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Yangmaso Shalza of Deulahland, P. O. Imphal
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.
Place: Lamphelpat, Imphal (Sd.) A. H. CHOWDURY,
Date: 21-3-77 Returning Officer."

MEGHALAYA

(1)

*"Election to the House of the People**1—Shillong Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Hoping Stone Lyngdoh, Vill. Mawkyllei, B. P. O. Kynshi
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Shillong

(Sd.) T. CAJEE.

Date: 22-3-77

Returning Officer."

(2)

*"Election to the House of the People**2—Tura Parliamentary Constituency*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that —

Shri Purna A Sangma, Hawkhana Tura, Meghalaya
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place. Tura

(Sd.) C N. S. NAIR,

Date: 21-3-77

Returning Officer."

[No. F. 13(2)/77-Leg.II]

E. VENKATESWARAN, Jt Secy

शिवि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1977

का० प्रा० 270(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणाएं, जिनमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं :

गुजरात

! (1)

"1-कच्छ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्निहित उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्री दवे अनन्तराय देवशंकर

3723 ई बाडियाशाली धर्मशाला, बंदर रोड,

मांडवी कच्छ 370465

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।"

स्थान : भुज कच्छ

(ह०) एल० एम० सूय

तारीख: 20-3-77

रिटर्निंग आफिसर।"

(2)

“2—सुरेन्द्र नगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :—

श्री अमीन रामदास किशोरदास

5, नीलकण्ठ पार्क, नौरंगपुरा, अहमदाबाद

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : सुरेन्द्रनगर

(ह०) ए० के० प्रधान,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(3)

“3—जामनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री विनोदभाई बी० शेठ

मेठ भगवानदास रोड, दिगविजय प्लाट, जामनगर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जामनगर

(ह०) विजय पंचम,

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(4)

“4—राजकोट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री पटेल केशूभाई सवदास भाई,

हाथीखाना रोड, जल टैंक के निकट, राजकोट

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : राजकोट

(ह०) भार० बसू,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(5)

“5—पोरबन्दर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोकसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री पटेल धर्मसिंह भाई दाहयाभाई

3, गिरनार सोसाइटी जूनागढ़

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं :

स्थान : पोरबन्दर

(ह०) सी० पी० पटेल,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर ।”

(6)

“6—जूनागढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री नथवाणी नरेन्द्र प्रागजी

21, बस्तावर एनेक्से, नरायण दामोलकर रोड

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : जूनागढ़

(ह०) एम० एन० बच्च,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर ।”

(7)

“7—अमरेली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री द्वाराकादास मोहन लाल पटेल

सावजीपारा अमरेली

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : अमरेली

(ह०) के० सी० महापात्रा,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर ।”

(8)

“8-भावनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि:—

श्री प्रसन्नबदन मणीलाल मेहता

याजनाकरिपा, टक्टेपूर वार्ड, भावनगर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : कलेक्टर का कार्यालय मोतीबाग, भावनगर

(ह०) आर० रोमाबदरन,

तारीख 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(9)

“9-घन्धुका (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि:—

श्री परमार नटवरलाल भगवानदाम

काली, जिला अहमदाबाद

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : अहमदाबाद

(ह०) जे० सी० चौधरी

तारीख : 20-3-1977

रिटनिंग आफिसर।”

(10)

“10-अहमदाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम; 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री जाफरी एहसान हुसैन अल्लाह बक्श

19, गुजबर्ग सोसाइटी, यमनपुर, अहमदाबाद

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : अहमदाबाद

(ह०) ए० प्रसाद,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(11)

“11—ग धीनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम - 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री पुरुषोत्तम गणेश भावलैकर

‘गायिका’ 22 महाराष्ट्र सोसाइटी, इल्लिसवृज, अहमदाबाद-38 00 06

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : अहमदाबाद

(ह०) एस० जी० भट्ट,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(12)

“12—मेहसना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

कुमारी पटेल मणी देव बल्लभभाई

28, ब्रह्मकक्षलीप सोसाइटी, इल्लिसवृज, अहमदाबाद

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान : मेहसना

(ह०) ए० डब्ल्यू० पी० डेविड,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(13)

“13—पाटन (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री भावड़ा खेमचन्द भाई मोमाभाई

घिनोज, ताल्लुक-चनासया, जिला मेहसना

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : पाटन

(ह०) कुन्वर लाल,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(14)

“14—बनसकंठा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री चौधरी मोतीभाई रणछोड़भाई

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : पालनपुर

(ह०) पी० के० लाहेरी,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(15)

“15—सावकंठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री एच० एम० पटेल

सविता बगला, बकरोला, बल्लभ विद्यानगर-388120

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : हिम्मतनगर

(ह०) एच० ए० मिश्री,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(16)

“16—कपाडगंज संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री वाघला भकराजी लक्ष्मणजी

ए०टी० एण्ड पी०ओ० बसन्त तालुक और जिला गांधी नगर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : हिम्मतनगर

(ह०) ए० अयांगर,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(17)

“17—दोहद (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री डामोर खोमजी भाई पंजाभाई, अदावाली सोसाइटी चकालिन रोड,
दोहद जिला, पंजाहल्स (गुजरात राज्य)

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: दोहद

(ह०) एच० सी० पात्ता,

तारीख: 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।

(18)

“18—गोध्रा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री देसाई हुतेन्द्र भाई [कनैयालाल
अकबर रोड, नई दिल्ली

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: गोध्रा

(ह०) एस० एन० हस्वर,

तारीख: 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(19)

“19—कैरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री देसाई धर्मसिंह बाबूभाई, धर्मसिंह पार्क,

एन० एच० न० 8, डाकघर-31 नादियाद-38700

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: नादियाद

(ह०) के० वी० मनुजन,

तारीख: 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(20)

“20—आनन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री अजीतसिंह पूलसिंहजी डाभाई

दावली पोल, नादियाद ताल्लुक नादियाद, जिला कैरा (गुजरात)

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: आनन्द

(ह०) एन० के० चौहान,

तारीख: 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(21)

“21—छोटा उदयपुर (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री राठवा अमरसिंह विरियाभाई

पेट एण्ड पोस्ट बधन्त ताल्लुक, छोटा उदयपुर, जिला बड़ोडरा

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: बड़ोडरा

(ह०) एस० आर० प्रधान.

तारीख: 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(22)

“22—बड़ौदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री गायकवाड़ फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव

लक्ष्मी विलास पैलेस, बड़ोडरा

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: बड़ौदा

(ह०) टी० आर० अग्रनानी,

तारीख: 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(23)

“23—भड़ोच संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि श्री पटेल अहमद भाई मोहम्मदभाई

पिरामन, ताल्लुक अकलेश्वर, जिला भड़ोच

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: भड़ोच

(ह०) संजीव मिश्र,

तारीख: 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(24)

“24—सूरत संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री देसाई मोरारजी रणछोडजी

5, डफ्लेक्म रोड, नई दिल्ली-11

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: सूरत

(ह०) ए० प्रसाद

तारीख: 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(25)

“25—मण्डवी (अ०ज०आ०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री गामित छोटुभाई देवजी भाई

एट ऐण्ड पोस्ट: कजोड़ ताल्लुक, वालोड, जिला सूरत

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: सूरत

(ह०) दीपंकर बसु,

तारीख: 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(26)

‘26—बुलसर (घ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री पटेल नानुभाई नीछाभाई

पर: बघालवार, डाकघर—डुंगरी, जिला-बुलसर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: बुलसर

(ह०) ए० के० चक्रवर्ती

तारीख: 20-3-77

रिटर्निंग आफिसर।”

हरियाणा

(1)

“1—भम्बाला (घ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री सूरज भाग

121, रेलवे रोड, भम्बाला कैण्ट, जिला भम्बाला।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: भम्बाला शहर

(ह०) एम० एम० मेहता

तारीख: 21-3-77

रिटर्निंग आफिसर।”

(2)

“2—कुरुक्षेत्र संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री रघुवीरसिंह

बूटासिंह कालोनी, करनाल

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: कुरुक्षेत्र

(ह०) श्री० दास गुप्ता,

तारीख: 21-3-77

रिटर्निंग आफिसर।”

(3)

“3—करनाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री भगवत दयाल

19, लोधी स्टेट, नई दिल्ली

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : करनाल

(ह०) धनेन्द्र कुमार,

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(4)

“4—सोनीपत संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री मुख्तियार सिंह

ऐडवोकेट, मिशन रोड, सोनीपत

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : सोनीपत

(ह०) अपाध्य

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(5)

“5—रोहतक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री प्रो० शेरसिंह

ग्राम बगपुर, जिला रोहतक

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : रोहतक

(ह०) एस० पी० मिश्र,

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(6)

“6—करीबाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री धर्मवीर वशिष्ठ

ग्राम मिहि, तहसील बल्लभगढ़

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : गुड़गांव

(ह०) एम० के० सिगलाना,

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(7)

“7—महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री मनोहर लाल

एडवोकेट, मोहल्ला पिरागा, नारनौल

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : नारनौल

(ह०) आर० एस० मन,

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(8)

“8—भिवानी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्रीमती चन्द्रवती

चरखी डाढ़री, जिला भिवानी

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान : भिवानी

(ह०) एम० एस० वर्मा,

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(9)

“9—हिसार संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री इन्द्र सिंह

सरस्वती भवन, जिला नरवाना, जिनंद

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जिनंद

(हं०) रघुवीर सिंह,

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(10)

“10—सिरसा (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री चान्द राम

621, रवीवास नगर, रोहतक

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : हिसार।

(हं०) एल० एम० गोयल,

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

महाराष्ट्र

(1)

“1—राजापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

प्रो० मधु वण्डवते

शारदाश्रम भवानी शंकर मार्ग,

दादर, मुम्बई—28

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : रत्नगिरि]

(हं०) सुरेश कुमार,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(2)

“2—रत्नगिरि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री परलेकर बापूसाहेब

“भानन्द भवन”, रत्नगिरि

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : रत्नगिरि

तारीख : 20-3-77

(ह०) सुरेश कुमार,

रिटनिंग आफिसर।”

(3)

“3—कोलाबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री दिनकर बालू पाटिल

“संग्राम” पनवेल, जिला कोलाबा, महाराष्ट्र

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : अलिबाग

तारीख : 20-3-77

(ह०) बी० के० अग्रवाल,

रिटनिंग आफिसर।”

(4)

“4—मुम्बई दक्षिण संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री राजदा रत्नसिंह गोकुलदास

145-सी, डा० बी गास स्ट्रीट, खीमजी माथुरदास बिल्डिंग,

मुम्बई-400002.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : एलफिंस्टन कॉलेज मुम्बई

तारीख : 21-3-77

(ह०) एन० एच० आर० हिन्नीबटा,

रिटनिंग आफिसर।”

(5)

“5—मुम्बई दक्षिण-केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसारण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री बापू चन्द्रसेन काम्बले,
एडवोकेट, 11/74, आदर्श नगर,
प्रभा देवी, मुम्बई-400025.”

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र में उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।
स्थान: एलफिस्टन कालेज, मुम्बई (ह०) एम० एच० आर० हिन्नीवडा,
तारीख: 21-3-77 रिटर्निंग आफिसर ।”

(6)

“6—मुम्बई उत्तर-केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसारण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर,
बेंकटेश निवास, कक्ष सं० 21
तीसरी मंजिल, एम/एच सं० 37, बहुदाजी मार्ग, माटुंगा,
मुम्बई-400019.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं ।

स्थान: मुम्बई
तारीख: 20-3-77

(ह०) एम० बी० चौबे,
रिटर्निंग आफिसर ।”

(7)

“7—मुम्बई उत्तर-पूर्व संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसारण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

डा० सुब्रामण्यम स्वामी
मार्फत एस० टी० रानी, ए-गुर पार्क, बिल्डिंग
सं० 1, चौथी मंजिल, बी० एन० घुरख मार्ग, चेम्बुर, मुम्बई-400071.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान: मुम्बई
तारीख: 21-3-77

(ह०) सी० डी० सिंह,
रिटर्निंग आफिसर ।”

(8)

“8—मुम्बई उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री राम जेठमलानी

एम०एच० सं० 8, एडवन्त बी० जगन्नाथ, भोसले मार्ग, मुम्बई

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: मुम्बई

तारीख: 21-3-77

(ह०) सी० डी० सिंह,
रिटनिंग आफिसर।”

(9)

“9—मुम्बई उत्तर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्रीमती मुन्नाल कैलाश बोरे,

टोपीवाला बंगला,

एम० बी० मार्ग, बोरेगांव, मुम्बई-62

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान: मुम्बई

तारीख: 20-3-77

(ह०) आर० गोपाल,
रिटनिंग आफिसर।”

(10)

“10—थाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री महालगी रामचन्द्र काशीनाथ,

465—बानिबार पेठ, पुणे-30,

महाराष्ट्र राज्य

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: कमपटर का कार्यालय

तारीख: 21-3-77

(ह०) आर० एस० मिश्र,
रिटनिंग आफिसर।”

(11)

“11—दहानु (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री कोम लहानु शिदावा

एटी० और डाकबर और तालुका तालासरी,

जिल्हा बाने, महाराष्ट्र राज्य

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान: बाने

तारीख: 20-3-77

(ह०) नीला सत्यनारायणन,
रिटर्निंग आफिसर ।”

(12)

“12—नासिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री हांडे बिट्ठलराव गणपतराव

पार्वती, स्कीम सं० 6, मार्ग सं० 5, सिम्रोन, पश्चिम, मुम्बई-400022.

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान: नासिक

तारीख: 21-3-77

(ह०) असोक बासक,
रिटर्निंग आफिसर ।”

(13)

“13—मालेगांव (अ० जा० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री महाले हरिशंकर

बारे, डाकबर दिधोघान, तालुका धिनडोरी,

जिल्हा नासिक (महाराष्ट्र)

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : नासिक

तारीख : 21-3-77

(ह०) असोक बासक,
रिटर्निंग आफिसर ।”

(14)

“14—धुलिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री पाटिल, विजयकुमार नवल

एटी० श्रीर डाकघर नवारा-नवारी

तालुका धुलिया, जिला धुलिया

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : धुले

(ह०) अजय कुमार,

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(15)

“15—नन्दुरबार (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री नायक सुरूपसिंह हिरया

नवागांव (धयाते) डाकघर उगरान तालुका नवापुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : धुले

(ह०) अजय कुमार,

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(16)

“16—हरन्दोल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री पाटिल सोनुसिंह धनसिंह

“रचना” भदगांव मार्ग, चालिसगांव, एटी श्रीर डाकघर

तालुका चालिसगांव, जिला जलगांव (महाराष्ट्र राज्य)

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जलगांव

(ह०) एस० एस० जामनाल,

तारीख : 21-3-77

रिटनिंग आफिसर।”

(17)

“17—जलगाव संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता कि—

श्री बोरोले यशवन्त मंसाराम
236—जिला पेठ, सेशन न्यायालय के निकट,
जलगाव, तालुका और जिला जलगाव

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जलगाव (ह०) एस० एस० जामवाल,
तारीख : 21-3-77 रिटनिंग आफिसर।”

(18)

“18—बुलढाना (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री गवाई, दौलत गुणाजी,
एटी डाकघर शिरपुर, तालुक चिखली, जिला बुलढाना

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : बुलढाना (ह०) आर तिवारी,
तारीख : 20-3-77 रिटनिंग आफिसर।”

(19)

“19—अकोला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री साठे, वसंतराव पुरुषोत्तम
घातोली, नागपुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : अकोला (ह०) के० नलिनाक्षण,
तारीख : 20-3-77 रिटनिंग आफिसर।”

(20)

“20—बाबिम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री नायक बसंतराव फूलसिंह
एटी० डाकघर पुसाड, जिला धवतमाळ

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।”

स्थान : अकोबा

(ह०) के० रविनाथन,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग ऑफिसर।”

(21)

“21—अमरावती संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री बाँडे, नाना महादेव,
मांगीलाल प्लाट, वार्ड सं० 5
अमरावती कैम्प, अमरावती,

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित गए हैं।

स्थान : अमरावती

(ह०) एम०.भार० पाटिल,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग ऑफिसर।”

(22)

“22—रामटेक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री बरसे, जतीरामजी, जेताराम जी,
एटी मोर डाकघर रामटेक, जिला नागपुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : नागपुर

(ह०) जगवीर जोशी,

तारीख : 20-3-77

रिटनिंग ऑफिसर।”

(23)

“23—नागपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री अबारी गेव मनचरणा,
सिरसा पेठ, उमरेड मार्ग,
वार्ड सं० 19, नागपुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : नागपुर

तारीख : 21-3-77

(ह०) जयदीप घोषी,
रिटनिंग आफिसर।”

(24)

“24—भण्डारा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री मानकर लक्ष्मणराव, बिसन जी
एटी और डाकघर ग्रामगांव, तहसील गोडिया,
जिला भण्डारा

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : भण्डारा

तारीख : 21-3-77

(ह०) के० एस० सिद्धू,
रिटनिंग आफिसर।”

(25)

“25—चिमुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री ठाकुर कृष्णराव डागोजी
एटी और डाकघर लखनदर, तहसील
सकोली, जिला भण्डारा

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : भण्डारा

तारीख : 21-3-77

(ह०) के० एस० सिद्धू,
रिटनिंग आफिसर।”

(26)

“26—चन्द्रापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री राजे विश्वेश्वर राव,

अहेरी, तालुका सिरोंचा, जिला चन्द्रापुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : चन्द्रापुर

तारीख : 20-3-77

(ह०) डी० के० शंकरन,

रिटनिंग आफिसर।”

(27)

“27—वर्धा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री गोडे संतोषराव वेंकटराव,

सुदामपुरी, बाई सं० 4, वर्धा

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : वर्धा

तारीख : 20-3-77

(ह०) आर० बी० बुद्धिराजा,

रिटनिंग आफिसर।”

(28)

“28—यवतमाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री जा० दे श्रीधरराव नत्थोबाजी,

एटी० डाकघर छहन्द, तालुका केलापुर, जिला यवतमाल

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : यवतमाल

तारीख : 20-3-77

(ह०) लालफक जुमाला,

रिटनिंग आफिसर।”

(29)

“29—हिगोली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री पाटिल चन्द्रकान्त रामकृष्ण,

एटी और डाकघर, गोरेगांव

तालुका हिगोली, जिला परभणी

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : नांदेड़

(ह०) डब्ल्यू० जी० रानादिव,

तारीख : 20-3-77

रिटर्निंग आफिसर।”

(30)

“30—नांदेड़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री घोडगे केशवराम शंकरराव,

क्रान्ति भवन, डाकघर, बहादुरपुरा, तालुका कंधार,

जिला नांदेड़

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : नांदेड़

(ह०) डब्ल्यू० जी० रानादिव,

तारीख : 20-3-77

रिटर्निंग आफिसर।”

(31)

“31—परभणी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री देशमुख शेषराव अप्पाराव,

“यशोधन,” देशमुख गली, मोठा भारोती, परभणी

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : परभणी

(ह०) पी० एम० कावडे,

तारीख : 20-3-77

रिटर्निंग आफिसर।”

(32)

“32—जालना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री पुण्डलीक हरि दानवे,

पिम्पल गांव सुतार, तालुका भोकारदन, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : औरंगाबाद

(ह०) जे० जी० राजाध्यक्ष

तारीख : 20-3-77

रिटर्निंग आफिसर।”

(33)

“33—औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

छा० बापू कालवत्ते,

6-सनमित्र कालोनी, औरंगाबाद

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : औरंगाबाद

(ह०) जे० जी० राजाध्यक्ष

तारीख : 20-3-77

रिटर्निंग आफिसर।”

(34)

“34—बीड़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री बुरांडे बंगा धर अप्पा,

निवासी मोहरा तालुका मंझलेगांव, जिला बीड़

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : बीड़

(ह०) जी० सी० गिल,

तारीख : 20-3-77

रिटर्निंग आफिसर।”

(35)

“35—सातूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री पाटिल उधधराध साहिब राव,

ताम्बरी विभाग, उस्मानाबाद

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : उस्मानाबाद

तारीख : 20-3-77

(ह०) आर० सी० अय्यर,

रिटनिंग आफिसर।”

(36)

“36—उस्मानाबाद (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री श्रंगारे तुकाराम सदाशिव,

अमिक कालोनी, सातूर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : उस्मानाबाद

तारीख : 20-3-77

(ह०) आर० सी० अय्यर,

रिटनिंग आफिसर।”

(37)

“37—शोलापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री दमानी सूरजराजन फतेहचन्द,

नगरपालिका घर सं० 11, दमानी हउस, कफ परेड मार्ग, मुम्बई

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : शोलापुर

तारीख : 20-3-77

(ह०) एस० एन० बाल्मिकी,

रिटनिंग आफिसर।”

(38)

“38—पंधारपुर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री थोर्ट सांदीपन भगवान,

16/120, शोभा नगर (मोदी), शोलापुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : शोलापुर

तारीख : 20-3-77

(ह०) एस० एन० खाण्डेकर,
रिटनिंग आफिसर ।”

(39)

“39—अहमदनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री शिवे अन्नासाहेब पाण्डुरंग,

घर स० 1435 एटी और डाकघर श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : अहमदनगर

तारीख : 20-3-77

(ह०) विजय सिंह,
रिटनिंग आफिसर ।”

(40)

“40—कोपरगांव संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री बिखे एकनाथराव विट्ठलराव,

लोनी बी के० के, डाकघर लोनी खुर्द, तालुका श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : अहमदनगर

तारीख : 20-3-77

(ह०) विजय सिंह,
रिटनिंग आफिसर ।”

(41)

“41—खेड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री अन्नासाहेब मांगर,

हडपसार, पुणे-28

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : पुणे

तारीख : 20-3-77

(ह०) ग्रहणा बागची,

रिटनिंग आफिसर।”

(42)

“42—पुणे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री मोहन धारिया मानिकचन्द,

2064, सदाशिव पेठ, पुणे

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : पुणे

तारीख : 20-3-77

(ह०) डी० के० अफजलपुरकर,

रिटनिंग आफिसर।”

(43)

‘43—बारामती संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री सम्भाजी राव काकादे,

2037, सदाशिव पेठ, पुणे-30

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : पुणे

तारीख : 20-3-77

(ह०) डी० के० अफजलपुरकर,

रिटनिंग आफिसर।”

(44)

“44—सतारा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री चव्हाण यशवन्तराव बलवन्तराव,

घर सं० 310 शुक्रवार पेठ, कराड, जिला सतारा, महाराष्ट्र

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : सतारा

तारीख : 20-3-77

(ह०) अरुण भाटिया,
रिटनिंग आफिसर”

(45)

“45—कराड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री चव्हाण प्रेमनाथबाई दाजी माहेब,

243, डी 2/3, शनिवार पेठ, पाटन कालोनी, कराड, तालुका कराड जिला सतारा

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - सतारा

तारीख : 20-3-77

(ह०) अरुण भाटिया,
रिटनिंग आफिसर।”

(46)

46—सांगली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री गोडखिन्डे गणपतराव तुकाराम,

सरफि कट्टा, सांगली

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : सांगली

तारीख : 20-3-77

(ह०) के० सी० श्रीवास्तव,
रिटनिंग आफिसर।”

(47)

“47—इचलकरांजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री माने राजाराम उर्फ आला साहेब शंकरराव

289-बी, रुकवी तालुका हटकनगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र राज्य

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : कोल्हापुर

तारीख : 20-3-77

[(ह०) डी० टी० जोसेफ,
रिटनिंग आफिसर।”]

(48)

“48—कोल्हापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री देसाई दाजीबा बलवन्तराव

9-सदाशिव नगर, बेलगांव, कर्नाटक राज्य

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : कोल्हापुर

तारीख : 21-3-77

[(ह०) डी० टी० जोसेफ,
रिटनिंग आफिसर।”]

मणिपुर

(1)

“1—आन्तरिक मणिपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री एन० तोम्बी सिंह, उवीपाक वाले

निगंठोखोगंजाम लेकाय, डाक घर इम्फाल

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : लम्फेलपत, इम्फाल

तारीख : 22-3-77

(ह०) ए० एच० चौधरी,
रिटनिंग आफिसर।”]

(2)

“2—बाह्य मणिपुर (अ० ज० ज०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से]

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री यगमासो गीजा, दयूकालैड घाले

डाकघर इम्फाल

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : लम्फेलपत, इम्फाल

तारीख : 21-3-77

(ह०) ए० एच० चौधरी,

रिटनिंग आफिसर ।”

मंडालय

(1)

“1—शिलांग ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री होपिंग स्टोन ल्यंगडोह

ग्राम माकीलाई, बी० पी० जी० क्यांसी

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : शिलांग

तारीख : 22-3-77

(ह०) टी० काजी;

रिटनिंग आफिसर ।”

(2)

“2—तुरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से

लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री पूरना ए० संगमा,

हारबाना तुरा, मेघालय

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : तुरा

तारीख : 21-3-77

(ह०) सी० एन० एम० नायर,

रिटनिंग आफिसर ।”

[(सं० फा० 13(2)/77-वि० II)

ई० वीकटेश्वरन, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा निर्यंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977